

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

28 मई 2019

जामिया के अध्यापक को ब्रिटेन की राॅयल सोसाइटी आॅफ केमिस्ट्री का फेलो चुना गया

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर डा. इम्तियाज़ हसन को, मेडिसिनिल केमिस्ट्री और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, ब्रिटेन की राॅयल सोसाइटी आॅफ केमिस्ट्री:आरएससी: का फेलो चुना गया है। आरएससी केमिस्ट्री के क्षेत्र में असाधारण योगदान करने वालों को अपना फेलो चुन कर, उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करती है।

यह दुनिया की सबसे पुरानी प्रोफेशनल एसोसिएशन की तरफ से दिया गया एक प्रतिष्ठित सम्मान है। चुने गए फेलो को आरएससी, फेलो आॅफ द राॅयल सोसाइटी आॅफ केमिस्ट्री के पद से सम्मानित करती है। नए चुने गए फेलो के नाम द टाइम्स:लंदन: में प्रकाशित किए गए हैं।

साल 1841 में स्थापित यह संगठन, रासायनिक विज्ञान का बढ़ावा देने वाला यूरोप का सबसे बड़ा इदारा है। आरएससी, उद्योग एवं शैक्षिक संस्थाओं से सहयोग करता है, सरकार को नीतिगत सलाह देता है। वह विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाओं, आपसी सहयोग, इनोवेशन, सूचनाओं और नए विचारों को उत्साहित करता है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान:एम्स: से पीएच.डी. की डिग्री हासिल करने के बाद, डा हसन जामिया का हिस्सा बने और प्रोटीन फोल्डिंग तथा स्ट्रक्चरल बायोलॉजी औषधि के क्षेत्र में अनुसंधान को कामयाबी से आगे बढ़ाया। उनका अनुसंधान कैंसर, मधुमेह और न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों के चिकित्सीय आयामों पर केन्द्रित रहा, जिसमें उन्होंने काफी कामयाबी पायी। उन्होंने प्रोटीन फोल्डिंग के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया।

साइंस और रिसर्च के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी और जुनून के चलते , स्ट्रक्चरल बायोलॉजी से जुड़ी दुनिया की प्रमुख पत्रिकाओं में उनके 210 से ज़्यादा शोध कार्य छप चुके हैं। उनके 3400 साइटेशन:उल्लेखों: का विशाल आंकड़ा, दुनिया के पैमाने पर उनके रिसर्च कार्यों की सराहना और

स्वीकार्यता को दिखाता है। वह देश के उन गिने चुने वैज्ञानिकों में शामिल हैं जिनके, इतने कम समय में दुनिया भर की पत्रिकाओं में इतने सारे शोध कार्य प्रकाशित हुए।

डा. हसन, इस अकादमिक उत्कृष्टता के चलते, पहले से ही नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया, इलाहाबाद के लिए चुने गए और इंडो-यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम तथा डीएसटी भारत के फेलो बने।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक